



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 01.07.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### “मिशन शक्ति” से मिली खुशबू को अपराध से लड़ने की शक्ति



दिनांक 19.06.21 को श्रीमती खुशबू पत्नी गुरमुख निवासी ग्राम सिसौरा थाना फूलबेहड़ द्वारा यूपी 112 पर सूचना दी गई कि उनके घर में उनके पति के पास अवैध नशीला पदार्थ मौजूद है। उक्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी धौरहरा के नेतृत्व में थाना फूलबेहड़ पुलिस व पीआरवी 2892 की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल दबिश देकर अभियुक्त गुरमुख सिंह को गिरफ्तार करके उसके घर से प्लास्टिक की बोरी में रखा हुआ 06 पैकेट में कुल 05 किलो 45 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (अफीम) व 43,000 रुपये नगद बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना फूलबेहड़ पर एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

आज दिनांक 01.07.21 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा श्रीमती खुशबू पत्नी गुरमुख उपरोक्त के इस साहसपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए उनको सम्मानित किया गया तथा उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रूपये नगद पुरस्कार व अंग वस्त्र भेंट किया गया। साथ ही अन्य सभी महिलाओं को भी इनसे प्रेरणा लेकर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपराध मुक्त समाज के निर्माण में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस मौके पर बताया गया कि यह मिशन शक्ति का सकारात्मक प्रभाव ही है कि हमारी सम्मानित महिलायें आगे आकर अपराध के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द कर रही हैं और समाज को सबके लिए सुरक्षित बनाने का कार्य कर रही हैं।

## “मिशन शक्ति” अभियान के तहत जागरुकता व आत्मरक्षा से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अरुण कुमार के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी के समस्त थानों में पशुपालन/ ईट भट्टों में काम करने वाली महिलाओं व लड़कियों एवं स्कूल/कॉलेज छोड़ चुकी बच्चियों/लड़कियों व नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं/महिलाओं को जागरुक करने हेतु **मिशन शक्ति** के तहत 07 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 01.07.2021 को जनपद खीरी के समस्त थानों में पुलिस द्वारा “मिशन शक्ति” अभियान के तहत जागरुकता व आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जनपद के समस्त थानों की एन्टी रोमियो स्काड/ शक्ति मोबाइल द्वारा विभिन्न ग्रामों/मोहल्लों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/पशुपालन इकाईयों/ ईट भट्टों में जाकर उपस्थित महिलाओं/ बालिकाओं को जागरूक करते हुए 1090-वूमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076 -मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थानों पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित “महिला हेल्प डेस्क” के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी, जहाँ पर कोई भी महिला/बालिका अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। एन्टी रोमियो टीम द्वारा चेंकिंग के दौरान मिलने वाली महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है यदि उनकी कोई समस्या है तो उन्हें नोट कर उसका त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है।



## चोरी की 07 मोटर साइकिल सहित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण मे अवैध क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.07.2021 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त सलीम पुत्र अमीर हमजा नि0 शुक्ला वार्ड कस्बा व थाना धौरहरा को 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल सहित मनोरंजन पार्क निघासन रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर 06 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों को मनोरंजन पार्क से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व से थाना धौरहरा व थाना कोतवाली सदर में वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रु0 का नकद पुरस्कार दिया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.सलीम पुत्र अमीर हमजा निवासी शुक्ला वार्ड कस्बा व थाना धौरहरा जनपद खीरी

### -बरामदगी का विवरण:-

1. 07 अदद चोरी की मोटर साइकिल

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1.श्री रमेश चन्द्र यादव (निरी0 अपराध थाना कोतवाली सदर)

2.उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह

3.उ0नि0 श्री मनीष पाठक

4. हे0का0 विजय शर्मा

5.का0 कौशलेन्द्र मिश्रा

6.का0 विजेन्द्र यादव

## चोरी की 03 मोटर साइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण मे अवैध क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 30.06.2021 को थाना खीरी पुलिस द्वारा कटकुसमा तिराहा पर वाहन चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रोहित अवस्थी उर्फ छोटू पुत्र रामजीवन नि0 ग्राम पटेहरा थाना व जनपद खीरी को 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर 02 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों को उसके घर से बरामद किया गया। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रोहित अवस्थी उर्फ छोटू पुत्र रामजीवन निवासी ग्राम पटेहरा थाना व जनपद खीरी

### बरामदगी का विवरण:-

1. 03 अदद चोरी की मोटर साइकिल

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री टीटू कुमार (थाना खीरी)
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप
3. हे0का0 रमेशचन्द्र
4. का0 सुरेश कुमार यादव
5. का0 रामेश्वर यादव

## थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त अजमानी पुत्र मो० उमर को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अजमानी पुत्र मो० उमर निवासी श्रीनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 286/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## थाना गोला पुलिस द्वारा 05 अदद अवैध तमंचा व 18 कारतूस बरामद कर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1.उत्कर्ष पांडेय पुत्र उमाशंकर निवासी भारत भूषण कॉलोनी थाना गोला जनपद खीरी 2.आशीष कुमार वर्मा पुत्र मुन्ना लाल निवासी मथुरानगर थाना गोला जनपद खीरी 3.शिखर विश्वकर्मा पुत्र रमेशचंद्र निवासी मिल कॉलोनी थाना गोला जनपद खीरी 4.सत्येंद्र वर्मा पुत्र सतीश कुमार निवासी मथुरानगर थाना गोला जनपद खीरी 5.सुहेल खान पुत्र यूनुस खान निवासी मथुरानगर थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 अदद अवैध तमंचा तथा 18 अदद कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

- 1.उत्कर्ष पांडेय पुत्र उमाशंकर निवासी भारत भूषण कॉलोनी थाना गोला जनपद खीरी
- 2.आशीष कुमार वर्मा पुत्र मुन्ना लाल निवासी मथुरानगर थाना गोला जनपद खीरी
- 3.शिखर विश्वकर्मा पुत्र रमेशचंद्र निवासी मिल कॉलोनी थाना गोला जनपद खीरी
- 4.सत्येंद्र वर्मा पुत्र सतीश कुमार निवासी मथुरानगर थाना गोला जनपद खीरी
- 5.सुहेल खान पुत्र यूनुस खान निवासी मथुरानगर थाना गोला जनपद खीरी

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 03 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 10 अदद जिन्दा कारतूस  
01 अदद अद्दी 12 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस  
01 अदद पिस्टल 32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस



## थाना निघासन पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त मोलहे पुत्र महरूम को अवैध शस्त्र कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों /संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.07.2021 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 289/21 धारा 380/411 भादवि में वांछित अभियुक्त मोलहे पुत्र महरूम निवासी ग्राम पठाननपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के लगभग डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

मोलहे पुत्र महरूम निवासी ग्राम पठाननपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी

### **बरामदगी का विवरण:-**

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस

**थाना नीमगांव पुलिस द्वारा 02 अदद अवैध तमंचा व 04 कारतूस सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1.सद्दीक अली पुत्र कासिम निवासी ग्राम पिपरा थाना नीमगांव जनपद खीरी 2.फुरकान उर्फ़ भैयालाल पुत्र अहमद निवासी रायपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 315 बोर तथा 04 अदद कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।



**थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त अनुज शुक्ला पुत्र प्रमोद को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त अनुज शुक्ला पुत्र प्रमोद नि० बगहा थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध तमंचा ३१५ बोर व ०१ अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० १६८/२१ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

१. अनुज शुक्ला पुत्र प्रमोद नि० बगहा थाना फरधान जनपद खीरी

**बरामदगी-**

१. ०१ अदद अवैध तमंचा ३१५ बोर
२. ०१ अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोर

**पुलिस टीम -**

- १- उ०नि० आशीष कुमार
- २- हे०का० अबरार हुसैन
- ३- हे०का० लक्ष्मीकांत वर्मा

**थाना फरधान पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त मोतीलाल पुत्र कन्हैया को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अद0सं0 164/21 धारा 353/504/506 भादवि में वांछित एक नफर वांछित अभियुक्त मोतीलाल पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम राजापुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. मोतीलाल पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम राजापुर उम्र करीब 72 वर्ष थाना फरधान जनपद खीरी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1- उ0नि0 आशीष कुमार
- 2- हे0का0 अबरार हुसैन
- 3- हे0का0 लक्ष्मीकांत वर्मा

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा सहित अभियुक्त शिवकमल उर्फ शिव शंकर को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवकमल उर्फ शिव शंकर शुक्ला पुत्र श्री ब्रजेन्द्र कुमार शुक्ला नि० फत्तेपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 586/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. शिवकमल उर्फ शिव शंकर शुक्ला पुत्र श्री ब्रजेन्द्र कुमार शुक्ला नि० फत्तेपुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

**बरामदगी-**

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

**थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त अजमानी पुत्र मो० उमर को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अजमानी पुत्र मो० उमर नि० श्री नगर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 286/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अजमानी पुत्र मो० उमर नि० श्री नगर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

**बरामदगी-**

1. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**थाना पसगवां पुलिस द्वारा 01 नफर अपहता को सकुशल बरामद किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपहृताओं/गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.07.2021 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 192/21 धारा 363/366 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**थाना धौरहरा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त कमाल पुत्र इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.07.2021 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 254/21 धारा 323/504/506/436 भादवि में वांछित अभियुक्त कमाल पुत्र इब्राहिम निवासी हरदेवपुरवा मजरा मटेहनी थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

## थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध छुरी सहित अभियुक्त मुन्ना पुत्र मगरे को

### गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्ना पुत्र मगरे नि० मो० दामोदरपुर कस्बा व थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध छुरी बरामद की गई। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० २६०/२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

१. मुन्ना पुत्र मगरे नि० मो० दामोदरपुर कस्बा व थाना मैलानी

### बरामदगी-

१. ०१ अदद अवैध छुरी

## थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त राजपाल पुत्र शिवराम को

### गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त राजपाल पुत्र शिवराम नि० शंकरपुर थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० २३०/२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

१. राजपाल पुत्र शिवराम नि० शंकरपुर थाना व जनपद खीरी

### बरामदगी-

१. ०१ अदद अवैध चाकू

**थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध रामपुरी चाकू सहित अभियुक्त सर्वेश पुत्र अशर्फी को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त सर्वेश पुत्र अशर्फी नि० इब्राहिमपुर थाना फूलबेहड़ जनपद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध रामपुरी चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 272/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. सर्वेश पुत्र अशर्फी नि० इब्राहिमपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध रामपुरी चाकू

**अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 40 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 02 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना सिंगाही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैलानी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार